

प्रेस रिलीज़

क्रेडाई-एमसीएचआई ने सबसे पहले आगे बढ़कर केरल बाढ़ राहत के लिए उदारतापूर्वक दान किया

क्रेडाई-एमसीएचआई और क्रेडाई-महाराष्ट्र ने केरल बाढ़ राहत फंड में रु. 1.5 करोड़ की राशि और 11 टन राहत सामग्री भेजी, राहत सामग्री मुंबई से वायु सेना के विमान / कोस्ट गार्ड शिप से आज रात रवाना होगी

मुंबई, अगस्त 18, 2018: भारत में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्यों में से एक केरल इन दिनों सदी की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। इस कारण लाखों ज़िंदगियां प्रभावित हुई हैं और हजारों लोग दूर-दराज़ के स्थानों तथा अपने घर की छतों पर फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन, घर एवं पुलों के ढहने जैसी घटनाएं हो रही हैं। इस कारण विमान एवं रेल सेवाएं भी बड़े स्तर पर बाधित हुई हैं। राज्य के बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक चीज़ें, मूलभूत ज़रूरत वाली वस्तुएं, भोजन, पानी और दवाओं की तुरंत ज़रूरत है।

इस संदर्भ में केरल के माननीय मुख्यमंत्री की अपील पर तत्काल कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सुश्री मेधा गाडगिल, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार और श्री प्रवीण परदेसी, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के निजी सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में क्रेडाई-एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र की ओर से प्रेसिडेंट श्री नयन ए शाह, अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री सुखराज नाहर, सचिव श्री बंदिश अजमेरा और सीईओ श्री एस. एस. हुसैन, आईएएस (सेवानिवृत्त) शामिल हुए।

मुंबई एवं मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई-एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र ने हमेशा आगे बढ़कर देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य में सहायता की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस की अपील पर क्रेडाई-एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र ने केरल बाढ़ राहत फंड में रु. 1.5 करोड़ की राशि दान करने और 11 टन राहत सामग्री भेजने का फैसला किया। यह राहत सामग्री आज रात मुंबई से वायु सेना विमान / कोस्ट गार्ड शिप द्वारा रवाना होगी।

श्री नयन ए. शाह, प्रेसिडेंट, क्रेडाई-एमसीएचआई, श्री शांतिलाल कटारिया, प्रेसिडेंट, क्रेडाई महाराष्ट्र और श्री सतीश मगर, प्रेसिडेंट-इलेक्ट, क्रेडाई नेशनल ने अपने संयुक्त बयान में कहा: केरल में आई गंभीरतम बाढ़ के मददेनज़र, क्रेडाई एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र में हमने सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते बाढ़ राहत कार्यों के लिए उदारतापूर्वक दान किया है। हमारे सदस्यों ने बढ़ी संख्या में आगे आकर केरल बाढ़ पीड़ितों हेतु राहत सामग्री बेजने के लिए दिल खोलकर योगदान दिया है।

श्री सुखराज नाहर, अतिरिक्त उपाध्यक्ष, क्रेडाई एमसीएचआई ने तत्काल कदम उठाते हुए अपनी अध्यक्षता वाले संगठनों राजस्थान वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक करोड़ दो लाख रुपए और जीटो इंटरनेशनल मुंबई ज़ोन की ओर से रु. 51 लाख रुपए दान किये।

माननीय मुख्यमंत्री की अपील पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री नाहर ने कहा: इस देश के जागरूक नागरिक और रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई-एमसीएचआई के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मदद के लिए आगे आना हमारी जिम्मेदारा बनती है। हमें केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे अपने भाईयों की मदद के लिए पूरे दिल से मदद करनी होगी।

श्री एस. एस. हुसैन, सीईओ, ने बताया कि यह सभी प्रयास क्रेडाई एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से किये गये हैं।

ताज़ा अपडेट: आज शाम 6 बजे 11 टन राहत सामग्री समुद्री मार्ग से भेजी जा रही है तथा हवाई मार्ग से गिराई जा रही है। इस राहत सामग्री की खेप से लगभग 2.5 लाख लोगों को मदद मिलेगी। क्रेडाई एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र की ओर से रु. 1.5 करोड़ की राशि दान की गई है। राहत सामग्री पहुंचाने की पूरी व्यवस्था अभी की जा रही है।

यह राहत सामग्री बाढ़ से प्रभावित हुए लाखों लोगों को प्राप्त होगी। क्रेडाई एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र उन चुनिंदा संगठनों में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे पहले आगे आकर इतने कम समय में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाए और 10 टन राहत सामग्री की व्यवस्था की।

माननीय मुख्यमंत्री ने क्रेडाई एमसीएचआई और क्रेडाई महाराष्ट्र के इस मानवीय कदम के लिए सराहना की है।